



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अक्टूबर 3, 2025

संख्या 40

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	सितंबर 27	सितंबर 19	सितंबर 26	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3447403	3761730	3759652	-2078	312249
1.1 संचलन में नोट	3447381	3761714	3759636	-2078	312255
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	22	16	16	0	-6
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	101	0	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1020447	884937	897509	12572	-122938
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8254	7605	7602	-3	-652
2.6 अन्य बैंक	54632	50174	50157	-17	-4475
2.7 अन्य	768504	891522	863608	-27914	95104
3 अन्य देयताएं	2008888	2482467	2514283	31816	505395
कुल देयताएं / आस्तियां	7308270	8078580	8092954	14375	784684
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5192638	5194363	5191560	-2803	-1078
2 सोना	550741	817376	842935	25559	292194
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1314645	1772839	1731582	-41257	416937
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	24412	32445	32622	177	8210
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	33302	57401	84836	27435	51534
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	176464	177288	180880	3592	4416
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	14006	24803	26476	1673	12470

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकनकी वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	सितंबर 26, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6211881	700236	22198	-2334	499741	31910	311743	-4649
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5160999	581757	-2937	-4393	310165	14200	3556	-34397
1.2 स्वर्ण	842935	95017	25559	2238	174773	16841	292194	29221
1.3 विशेष आहरण अधिकार	166683	18789	362	-90	11394	620	11434	241
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	41264	4673	-784	-89	3409	250	4559	286

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकनकी वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अक्टूबर 03, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 913308 करोड़	2025													
	सितंबर 20	सितंबर 21	सितंबर 22	सितंबर 23	सितंबर 24	सितंबर 25	सितंबर 26	सितंबर 27	सितंबर 28	सितंबर 29	सितंबर 30	अक्टूबर 1	अक्टूबर 2	अक्टूबर 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	898661	900452	879516	959345	917932	915762	904307							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	98.4	98.6	96.3	105.0	100.5	100.3	99.0							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	सितंबर 19, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पड़वाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	319557	-2766	10732	10143	66256	14354
1.2 बैंकों से उधार	84797	-12020	-48333	-27179	-61023	-49299
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	26959	-776	-49611	-2957	-47718	4118
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23545571	-123339	1030441	964970	2225002	2039904
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.5	5.0	4.3	11.5	9.5
2.1.1 मांग	2847059	-44451	54520	149010	293782	348686
2.1.2 मीयादी	20698512	-78888	975921	815959	1931220	1691218
2.2 उधारियां	858518	41949	101684	-56730	39999	-21108
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1074849	-40551	93769	13217	153957	43652
3 रिज़र्व बैंक से उधार	57401	53465	-171493	-254065	-136725	6178
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	966350	-44356	21585	2062	-10986	-76150
4.1 उपलब्ध नकदी	81413	-2693	-3187	-461	-7896	-4833
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	884937	-41663	24772	2523	-3091	-71317
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	241013	-5275	14058	25212	30636	28628
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	14110	-11388	2371	-11728	-7902	-616
5.3 बैंकों को अग्रिम	31241	2153	-4532	-8263	-2964	-12595
5.4 अन्य आस्तियां	64462	-1697	-40479	-2891	-18569	-10483
6 निवेश	6846256	26259	297486	148328	422687	442212
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.4	4.9	2.2	7.1	6.9
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6845737	26199	297786	148439	422735	442342
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	519	60	-300	-111	-47	-130
7 बैंक ऋण	18902934	102248	692888	658961	1973738	1777882
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	4.2	3.6	13.0	10.4
7 क.1 खाद्य ऋण	45284	-296	-3155	8753	1061	25359
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18857649	102544	696043	650208	1972677	1752523
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18554398	97206	685807	644547	1928581	1734288
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	79646	912	4691	4683	20172	14489
7 ख.3 भुनाए गए	234632	4480	4944	13573	27455	32331
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12651	-394	-1161	-2471	-1249	-2600
7 ख.5 भुनाए गए	21606	44	-1392	-1371	-1221	-626

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	सितंबर 27	अगस्त 29	सितंबर 5	सितंबर 12	सितंबर 19	सितंबर 26
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	3.75	3.75	3.75
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.27	..	4.10	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	79.43	..	80.28	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	51.15	..	68.29	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	28.81	..	29.08	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	11.22	..	15.37	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/8.15	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकित औसत)	6.61	5.45	5.38	5.36	5.48	5.57
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	..	5.51	5.51	5.51	5.50	5.47
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	..	5.60	5.62	5.62	5.60	5.58
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	..	5.64	5.67	5.67	5.63	5.61
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.78	6.67	6.59	6.57	6.58	6.60
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.67	87.85	88.32	88.28	88.31	88.72
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	93.46	102.47	103.08	103.60	103.93	103.62
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.65	1.76	1.78	1.85	2.04	2.19
3-माह	1.74	1.80	1.83	1.97	2.06	2.17
6-माह	2.11	1.97	2.01	2.13	2.18	2.23

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	सितंबर 19	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28349333	-126680	-0.4	1014463	4.1	1062744	3.9	2450026	10.4	2395009	9.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3706680	-12309	-0.3	-17991	-0.5	75929	2.1	196309	6.1	314396	9.3
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2990459	-45095	-1.5	54096	2.1	150436	5.3	296853	12.7	349475	13.2
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21535691	-75448	-0.3	978810	5.2	833183	4.0	1935521	10.8	1708721	8.6
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	116503	6173	5.6	-451	-0.5	3196	2.8	21344	29.3	22418	23.8
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8490284	-256787	-2.9	22584	0.3	-20541	-0.2	333489	4.6	864129	11.3
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1324495	-283013		-272100		-183610		-89461		403383	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7165789	26225	0.4	294685	4.6	163069	2.3	422950	6.7	460746	6.9
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	19709648	109430	0.6	686532	4.0	641519	3.4	2006897	12.6	1820284	10.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	15669	5836		-3817		-22577		5471		5080	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	19693979	103593	0.5	690350	4.0	664096	3.5	2001425	12.6	1815204	10.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6608451	25857	0.4	424144	7.6	459924	7.5	895659	17.6	616803	10.3
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38438	381	1.0	1163	3.5	1806	4.9	3194	10.2	3844	11.1
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	6477524	6497489	5561	0.1	119960	2.2	19965	0.3	789213	16.4	910051	16.3
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2147427	2463314	32043	1.3	167196	9.3	315887	14.7	449547	29.8	505984	25.9

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	सितंबर 26	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4871529	12158	0.3	29446	0.6	42287	0.9	265586	6.0	210637	4.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3798074	-2078	-0.1	-29247	-0.8	73626	2.0	193049	5.9	315860	9.1
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	955268	12551	1.3	57884	5.6	-36221	-3.7	50960	4.9	-128065	-11.8
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	118187	1685	1.4	809	0.9	4881	4.3	21577	29.2	22842	24.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1337046	12551		-235868		-171059		-66579		379701	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1304467	12375		-253680		-170993		-79385		371492	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-43706	7413		-27945		75310		-183700		30386	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-62754	4034		-24095		94507		-189176		21894	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6033575	22704	0.4	502170	9.6	482628	8.7	1023642	21.7	290322	5.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38438			1401	4.2	1806	4.9	3184	10.1	3605	10.3
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2147427	2493824	30510	1.2	210313	11.7	346398	16.1	510963	34.3	493377	24.7

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	ऋय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सितंबर 22, 2025	-	-	21151	-	6679	66129	-	-	-	-38299
सितंबर 23, 2025	-	-	140516	-	328	123947	-	-	-	16897
सितंबर 24, 2025	-	-	48980	-	403	93350	-	-	10	-43957
सितंबर 25, 2025	-	-	69060	-	2688	95049	-	-	-	-23301
सितंबर 26, 2025	-	-	90931	-	385	147590	165	-	-	-56109
सितंबर 27, 2025	-	-	-	-	2966	136939	-	-	-	-133973
सितंबर 28, 2025	-	-	-	-	6922	137488	-	-	-	-130566

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जुलाई	अगस्त	जुलाई	अगस्त	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	193.0	193.0	196.1	197.0	0.5	2.6	2.1
1.1 ग्रामीण	195.3	195.4	197.6	198.7	0.6	2.5	1.7
1.2 शहरी	190.3	190.3	194.3	195.0	0.4	2.7	2.5
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	142.7	142.6	146.5	147.1	0.4	2.9	3.2
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	155.3	154.4	154.4	155.2	0.5	0.3	0.5
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	197.8	195.1	188.0	191.0	1.6	3.0	-2.1
3.2 ईंधन और बिजली	148.2	148.3	144.6	143.6	-0.7	-5.6	-3.2
3.3 विनिर्मित उत्पाद	141.7	141.3	144.6	144.9	0.2	0.2	2.5

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
सितंबर 05, 2025	495294	41965	5.69 - 6.50
सितंबर 19, 2025	501817	71730	5.49 - 6.82

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
सितंबर 15, 2025	526704	99422	5.72 - 11.97
सितंबर 30, 2025	488263	70288	5.73 - 12.34

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	सितंबर 27, 2024	सितंबर 19, 2025	सितंबर 26, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	18628	34205	31298
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1013	8643	1694
3 त्रिपक्षीय रेपो	678781	857666	738792
4 बाजार रेपो	548987	811438	681777
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	5566	14021	15960

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

सितंबर 26, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	11815	19755	73862	213762
182-दिवसीय	54592	41109	17780	180680
364-दिवसीय	69483	74274	48138	359838
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (सितंबर 26, 2025 तक)	2024-25 (सितंबर 27, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (सितंबर 26, 2025 तक)	2024-25 (सितंबर 27, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	763000	705697	1400697	556299	510151	1039275
2. राज्य सरकारें	466692	385637	1073310	321992	265271	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।